

विषापहार स्तोत्र (हिंदी अनुवाद)  
Viṣāpahāra Stōtra (hindī anuvāda)

कविश्री शांतिदास  
Kaviśrī Sāntidāsa

संस्कृत रचना 'विषापहार स्तोत्र' के रचयिता 'महाकवि धनञ्जय' सुप्रसिद्ध द्विसंधान काव्यशैली के कर्ता थे। इस शैली के प्रत्येक पद्य के दो अर्थ होते हैं। पहला रामायण से सम्बन्धित और दूसरा महाभारत से। इसी कारण इस शैली को 'राघव-पांडवीय' भी कहते हैं। 'काव्यमीमांसा' जैसे महान ग्रन्थ के कर्ता राजशेखर ने धनञ्जय की बड़ी प्रशंसा की है। आपकी एक रचना 'धनञ्जय नाममाला' एक महत्त्वपूर्ण शब्दकोष है। धनञ्जय का समय विद्वानों ने आठवीं शताब्दी निश्चित किया है।

इस विषापहार-स्तोत्र में भगवान् ऋषभदेव की स्तुति है। यह स्तुति गंभीर, प्रौढ़ और अनूठी उक्तियों से भरपूर है। यह ग्रन्थ कवि की चतुराई से भरा हुआ है। हृदय-समुद्र को मथकर निकाला हुआ अमृत है। इसमें शब्दों का माधुर्य एवं अर्थों का गांभीर्य देखने को मिलता है। इस काव्य में स्थान-स्थान पर अलंकारों की छटा छिटकी हुई है।

एक बार कविराज धनञ्जय पूजन में लीन थे। उनके सुपुत्र को सर्प ने डस लिया। घर से कई बार समाचार आने पर भी वह निस्पृह-भाव से पूजन में पूर्णतया तन्मय रहे और पुत्र की कोई सुध नहीं ली। बच्चे को विष चढ़ रहा था, उनकी पत्नी ने कुपित होकर बच्चे को मंदिर में उनके सामने लाकर रख दिया। पूजन से निवृत्त होकर उन्होंने तत्काल भगवान् के सन्मुख ही विषापहार-स्तोत्र की रचना की, इधर स्तोत्र की रचना हो रही थी, उधर पुत्र का विष उतर रहा था। स्तोत्र पूरा होते होते बालक निर्विष होकर उठ बैठा। इससे धर्म की अपूर्व-प्रभावना हुई। श्रद्धा और मनोयोग-पूर्वक इसके पाठ से सुख-शांति मिलती है और सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं।

Sanskṛta racana 'Viṣāpahāra stōtra' kē racayitā 'mahākavi dhanañjaya' suprasid'dha dvisandhāna kāvyasāilī kē kartā thē. Isa śailī kē pratyēka padya kē dō artha hōtē hai m̄. Pahalā rāmāyaṇa sē sambandhita aura dūsarā mahābhārata sē. Isī kāraṇa isa śailī kō 'rāghava-pāṇḍavīya' bhī kahatē hai m̄. 'Kāvyamīmānsā' jaisē mahān grantha kē kartā rājasēkhara nē dhanañjaya kī baṛī praśansā kī hai. Āpakī ēka racanā 'dhanañjaya nāmamālā' ēka mahattvapūrṇa śabdakōṣa hai. Dhanañjaya kā samaya vidvānōm nē āṭhāvīm śatābdī niścita kiyā hai.

Isa viṣāpahāra-stōtra mēm bhagavān ṛṣabhadēva kī stuti hai. Yaha stuti gambhīra, prauṛha aura anūṭhī uktiyōm sē bharapūra hai. Yaha grantha kavi kī caturā'i sē bharā hu'ā hai. Hṛdaya-samudra kō mathakara nikālā hu'ā amṛta hai. Isa mēm śabdōm kā mādhurya ēvaṁ arthōn kā gambhīrya dēkhanē kō milatā hai. Isa kāvyā mēm sthāna-sthāna para alaṅkārōm kī chaṭā chiṭakī hu'i hai.

Ēka bāra kavirāja dhanañjaya pūjana mēm līna thē. Unakē suputra kō sarpa nē ḍasa liyā. Ghara sē ka'i bāra samācāra ānē para bhī vaha nispraha-bhāva sē pūjana mēm pūrṇatayā tanmaya rahē aura putra kī kr'i sudha nahīm ī. Baccē kō viṣa caṛha rahā thā,

unakīpatnīnē kupita hōkara baccē kō mandira mēm unakē sāmanē lākara rakha diyā.  
Pūjana sē nivṛtta hōkara unhōnnē tatkāla bhagavān kē sanmukha hī viṣāpahāra-stōtra kī  
racanā kī, idhara stōtra kī racanā hō rahīthī, udhara putra kā viṣa utara rahā thā. Stōtra pūrā  
hōtē hōtē bālaka nirviṣa hōkara uṭha baiṭhā. Is asē dharma kī apūrva-prabhāvanā hu'i.  
Śrad'dhā aura manōyōga-pūrvaka isakē pāṭha sē sukha-sānti milatī hai aura sārē  
manōratha pūrṇa hōtē haim |

(दोहा)

नमों नाभिनंदन बली, तत्त्व-प्रकाशनहार |  
चतुर्थकाल की आदि में, भये प्रथम-अवतार ||

(Dōhā)

Namaum nābhinandana balī, tattva-prakāśanahāra |  
Caturthakāla kī ādi mēm, bhayē prathama-avatāra ||

(रोला छन्द)

निज-आतम में लीन ज्ञानकरि व्यापत सारे |  
जानत सब व्यापार संग नहिं कछु तिहारे ||  
बहुत काल के हो पुनि जरा न देह तिहारी |  
ऐसे पुरुष पुरान करहु रक्षा जु हमारी ||१||

(Rōlā chanda)

Nija-ātama mēm līna jñānakari vyāpata sārē |  
Jānata saba vyāpāra saṅga nahim kachu tihārē ||  
Bahuta kāla kē hō puni jarā na dēha tihārī |  
Aisē puruṣa purāna karahu rakṣā ju hamārī ||1||

पर करि के जु अचिंत्य भार जग को अति भारो |  
सो एकाकी भयो वृषभ कीनों निसतारो ||  
करि न सके जोगिंद्र स्तवन में करिहों ताको |  
भानु प्रकाश न करै दीप तम हरै गुफा को ||२||

Para kari kē ju acintya bhāra jaga kō ati bhārō |  
Sō ēkākī bhayō vṛṣabha kīnōm nisatārō ||  
Kari na sakē jōgindra stavana maim karihōm tākō |  
Bhānu prakāśa na karai dīpa tama harai guphā kō ||2||

स्तवन करन को गर्व तज्यो सक्री बहुजानी ।  
में नहिं तजौं कदापि स्वल्प ज्ञानी शुभध्यानी ॥  
अधिक अर्थ का कहूँ यथाविधि बैठि झरोके ।  
जालांतर धरि अक्ष भूमिधर को जु विलोके ॥३॥

Stavana karana kō garva tajyō sakrī bahujñānī |  
Mair̄m nahir̄m tajaur̄m kadāpi svalpa jñānī śubhadhyānī ||  
Adhika artha kā kahūṁ yathāvidhi baiṭhi jharōkē |  
Jālāntara dhari akṣa bhūmidhara kō ju vilōkē ||3||

सकल जगत् को देखत अर सबके तुम ज्ञायक ।  
तुमको देखत नाहिं नाहिं जानत सुखदायक ॥  
हो किसानक तुम नाथ और कितनाक बखाने ।  
ताते थुति नहिं बने असक्ती भये सयाने ॥४॥

Sakala jagat kō dēkhata ara sabakē tuma jñāyaka |  
Tumakō dēkhata nāhir̄m nāhir̄m jānata sukhadāyaka ||  
Hō kisāka tuma nātha aura kitanāka bakhānēr̄m |  
Tātēr̄m thuti nahir̄m banē asakṭī bhayē sayānē ||4||

बालकवत निज दोष थकी इहलोक दुःखी अति ।  
रोगरहित तुम कियो कृपाकरि देव भुवनपति ॥  
हित अनहित की समझ नाहिं हैं मंदमती हम ।  
सब प्राणिन के हेत नाथ तुम बाल-वैद सम ॥५॥

Bālakavata nija dōṣa thakī ihalōka du:Khīati |  
Rōgarahita tuma kiyō kṛpākari dēva bhuvanapati ||  
Hita anahita kī samajha nāhir̄m hair̄m mandamatī hama |  
Saba prāṇina kē hēta nātha tuma bāla-vaida sama ||5||

दाता हरता नाहिं भानु सबको बहकावत ।  
आज-कल के छल करि नितप्रति दिवस गुमावत ॥  
हे अच्युत! जो भक्त नमें तुम चरन कमल को ।  
छिनक एक में आप देत मनवाँछित फल को ॥६॥  
Dātā haratā nāhir̄m bhānu sabakō bahakāvata |  
Āja-kala kē chala kari nitapratī divasa gumāvata ||  
Hē acyuta! Jō bhakta namēr̄m tuma carana kamala kō |  
Chinaka ēka mēr̄m āpa dēta manavāṁchita phala kō ||6||

तुम सों सन्मुख रहै भक्ति सों सो सुख पावे ।  
जो सुभावतें विमुख आपतें दुःखहि बढ़ावै ॥  
सदा नाथ अवदात एक द्युतिरूप गुसाईं ।  
इन दोन्यों के हेत स्वच्छ दरपणवत् झाँई ॥७॥

Tuma sōm sanmukha rahai bhakti sōm sō sukha pāvē |  
Jō subhāvataim vimukha āpataim du:Khahi baṛhāvai ||  
Sadā nātha avadāta ēka dyutirūpa gusā'in |  
Ina dōn'yōm kē hēta svaccha darapaṇavat jhāim' ||7||

है अगाध जलनिधी समुद्र जल है जितनो ही ।  
मेरु तुंग सुभाव सिखरलों उच्च भन्यो ही ॥  
वसुधा अर सुरलोक एहु इस भाँति सई है ।  
तेरी प्रभुता देव भुवन कूं लंघि गई है ॥८॥

Hai agādha jalanidhī samudra jala hai jitanō hī |  
Mēru tuṅga subhāva sikharalōm ucca bhan'yō hī ||  
Vasudhā ara suralōka ēhu isa bhānti sa'i hai |  
Tērī prabhutā dēva bhuvana kūrṁ laṅghi ga'i hai ||8||

है अनवस्था धर्म परम सो तत्त्व तुमारे ।  
कह्यो न आवागमन प्रभू मत माँहिं तिहारे ॥  
इष्ट पदारथ छाँड़ि आप इच्छति अदृष्ट कौं ।  
विरुधवृत्ति तव नाथ समंजस होय सृष्ट कौं ॥९॥

Hai anavasthā dharmā parama sō tattva tumārē |  
Kahyō na āvāgamana prabhū mata māñhīm tihārē ||  
Iṣṭa padāratha chāñṛi āpa icchatī adṛṣṭa kauṁ |  
Virudhavṛtti tava nātha samañjasa hōya sṛṣṭa kauṁ ||9||

कामदेव को किया भस्म जगन्नाता थे ही ।  
लीनी भस्म लपेटि नाम संभू निजदेही ॥  
सूतो होय अचेत विष्णु वनिताकरि हार्यो ।  
तुम को काम न गहे आप घट सदा उजार्यो ॥१०॥  
Kāmadēva kō kiyā bhasma jagatrātā thē hī |  
Līnī bhasma lapēṭi nāma sambhū nijadēhī ||  
Sūtō hōya acēta viṣṇu vanitākari hāryō |

Tuma kō kāma na gahē āpa ghaṭa sadā ujāryō ||10||

पापवान वा पुन्यवान सो देव बतावे ।  
तिनके औगुन कहे नाहिं तू गुणी कहावे ॥  
निज सुभावतें अंबु-राशि निज महिमा पावे ।  
स्तोक सरोवर कहे कहा उपमा बढि जावे ॥११॥

Pāpavāna vā pun'yavāna sō dēva batāvē |  
Tinakē auguna kahē nāhir̥m tū guṇī kahāvē ||  
Nija subhāvatair̥m ambu-rāśi nija mahimā pāvē |  
Stōka sarōvara kahē kahā upamā baṛhi jāvē ||11||

कर्मन की थिति जंतु अनेक करै दुःखकारी ।  
सो थिति बहु परकार करै जीवनकी खवारी ॥  
भवसमुद्र के माँहिं देव दोन्यों के साखी ।  
नाविक नाव समान आप वाणी में भाखी ॥१२॥

Karmana kī thitī jantu anēka karai du:Khakārī |  
Sō thitī bahu parakāra karai jīvanakī khvārī ||  
Bhavasamudra kē māñhir̥m dēva dōn'yōr̥m kē sākhī |  
Nāvika nāva samāna āpa vāṇī mēm bhākhī ||12||

सुख को तो दुःख कहे गुणनिकूँ दोष विचारे ।  
धर्म करन के हेत पाप हिरदे विच धारे ॥  
तेल निकासन काज धूलि को पेलै घानी ।  
तेरे मत सों बाहय ऐसे ही जीव अज्ञानी ॥१३॥

Sukha kō tō du:Kha kahē guṇanikūṁ dōṣa vicārē |  
Dharma karana kē hēta pāpa hiradē vica dhārē ||  
Tēla nikāsana kāja dhūli kō pēlai ghānī |  
Tērē matasōr̥m bāhya aisē hī jīva ajñānī ||13||

विष मोचै ततकाल रोग को हरै ततच्छन ।  
मणि औषधी रसाण मंत्र जो होय सुलच्छन ॥  
ए सब तेरे नाम सुबुद्धी यों मन धरिहैं ।  
भ्रमत अपरजन वृथा नहीं तुम सुमिरन करिहैं ॥१४॥

Viṣa mōcai tatakāla rōga kō harai tatakchana |  
Maṇi auṣadhī rasāṇṇa mantra jō hōya sulacchana ||  
Ē saba tērē nāma subud'dhī yōr̥m mana dharihair̥m |  
Bhramata aparajana vṛthā nahīr̥m tuma sumirana karihair̥m ||14||

किंचित् भी चितमाँहि आप कछु करो न स्वामी ।  
जे राखे चितमाँहिं आपको शुभ-परिणामी ॥  
हस्तामलकवत् लखें जगत् की परिणति जेती ।  
तेरे चित के बाहय तोउ जीवै सुख सेती ॥१५॥

Kiñcit bhī citamāñhi āpa kachu karō na svāmī |  
Jē rākhē citamāñhiṁ āpakō śubha-pariṇāmī ||  
Hastāmalakavat lakhēṁ jagat kī pariṇati jētī |  
Tērē cita kē bāhya tō'u jīvai sukha sētī || 15||

तीन लोक तिरकाल माहिं तुम जानत सारी ।  
स्वामी इनकी संख्या थी तितनी हि निहारी ॥  
जो लोकादिक हुते अनंते साहिब मेरा ।  
तेसपि झलकते आनि ज्ञान का ओर न तेरा ॥१६॥

Tīna lōka tirakāla māhiṁ tuma jānata sārī |  
Svāmī inakī sañkhyā thītitanī hi nihārī ||  
Jō lōkādika hutē anantē sāhiba mērā |  
Tēapi jhalakatē āni jñāna kā ōra na tērā || 16||

है अगम्य तव रूप करे सुरपति प्रभु सेवा ।  
ना कछु तुम उपकार हेत देवन के देवा ॥  
भक्ति तिहारी नाथ इंद्र के तोषित मन को ।  
ज्यों रवि सन्मुख छत्र करे छाया निज तन को ॥१७॥  
Hai agamya tava rūpa karē surapati prabhu sēvā |  
Nā kachu tuma upakāra hēta dēvana kē dēvā ||  
Bhakti tihārī nātha indra kē tōṣita mana kō |  
Jyōm ravi sanmukha chatra karē chāyā nija tana kō || 17||

वीतरागता कहाँ कहाँ उपदेश सुखाकर ।  
सो इच्छा प्रतिकूल वचन किम होय जिनेसर ॥  
प्रतिकूली भी वचन जगत् कूँ प्यारे अति ही ।  
हम कछु जानी नाहिं तिहारी सत्यासति ही ॥१८॥  
Vītarāgatā kahāññ kahāññ upadēśa sukhākara |  
Sō icchā pratikūla vacana kima hōya jinēsara ||  
Pratikūlī bhī vacana jagat kūññ pyārē ati hī |  
Hama kachu jānī nāhiṁ tihārī satyāsati hī || 18||

उच्च प्रकृति तुम नाथ संग किञ्चित् न धरनिर्ते ।  
जो प्रापति तुम थकी नाहिं सो धनेसुरनर्ते ॥  
उच्च प्रकृति जल विना भूमिधर धूनी प्रकासै ।  
जलधि नीरर्ते भर्यो नदी ना एक निकासै ॥१९॥

Ucca prakṛti tuma nātha saṅga kiñcit na dharanitairm |  
Jō prāpati tuma thakī nāhirṁ sō dhanēsuranataim ॥  
Ucca prakṛti jala vinā bhūmidhara dhūnī prakāsai |  
Jaladhi nīrataim bharyō nadī nā ēka nikāsai ॥19॥

तीन लोक के जीव करो जिनवर की सेवा ।  
नियम थकी कर दंड धर्यो देवन के देवा ॥  
प्रातिहार्य तो बनें इंद्र के बनै न तेरे ।  
अथवा तेरे बनै तिहारे निमित परे रे ॥२०॥

Tīna lōka kē jīva karō jinavara kī sēvā |  
Niyama thakī kara daṇḍa dharyō dēvana kē dēvā ॥  
Prātihārya tō banaim indra kē banai na tērē |  
Athavā tērē banai tihārē nimita parē rē ॥20॥

तेरे सेवक नाहिं इसे जे पुरुष हीन-धन ।  
धनवानों की ओर लखत वे नाहिं लखत पन ॥  
जैसें तम-थिति किये लखत परकास-थिती कूं ।  
तैसें सूझत नाहिं तमथिती मंदमती कूं ॥२१॥

Tērē sēvaka nāhirṁ isē jē puruṣa hīna-dhana |  
Dhanavānōm kī ōra lakhata vē nāhirṁ lakhata pana ॥  
Jaisaim tama-thiti kiyē lakhata parakāsa-thitī kūm |  
Taisaim sūjhata nāhirṁ tamathitī mandamaṭī kūm ॥21॥

निज वृध श्वासोच्छ्वास प्रगट लोचन टमकारा ।  
तिनकों वेदत नाहिं लोकजन मूढ़ विचारा ॥  
सकल जेय ज्ञायक जु अमूरति ज्ञान सुलच्छन ।  
सो किमि जान्यो जाय देव तव रूप विचच्छन ॥२२॥

Nija vṛdha śvāsōcchvāsa pragaṭa lōcana ṭamakārā |  
Tinakōm vēdata nāhirṁ lōkajana mūṛha vicārā ॥  
Sakala jñēya jñāyaka ju amūrati jñāna sulacchana |  
Sō kimi jān'yō jāya dēva tava rūpa vicacchana ॥22॥

नाभिराय के पुत्र पिता प्रभु भरत तने हैं |  
कुलप्रकाशि कै नाथ तिहारो स्तवन भनै हैं ||  
ते लघु-धी असमान गुनन को नाहिं भजै हैं |  
सुवरन आयो हाथ जानि पाषान तजै हैं ||२३||

Nābhirāya kē putra pitā prabhu bharata tanē haiṁ |  
Kulaprakāśi kaim nātha tihārō stavana bhanai haiṁ ||  
Tē laghu-dhī asamāna gunana kōṁ nāhiṁ bhajai haiṁ |  
Suvarana āyō hāthajāni pāṣāna tajaiṁ haiṁ ||23||

सुरासुरन को जीति मोह ने ढोल बजाया |  
तीन लोक में किये सकल वशि यों गरभाया ||  
तुम अनंत बलवंत नाहिं ढिंग आवन पाया |  
करि विरोध तुम थकी मूलतैं नाश कराया ||२४||

Surāsurana kō jīti mōha nē ḍhōla bajāyā |  
Tīna lōka mēm kiyē sakala vaśi yōṁ garabhāyā ||  
Tuma ananta balavanta nāhiṁ ḍhiṅga āvana pāyā |  
Kari virōdha tuma thakī mūlataim nāśa karāyā ||24||

एक मुक्ति का मार्ग देव तुमने परकास्या |  
गहन चतुरगति मार्ग अन्य देवन कूँ भास्या ||  
'हम सब देखनहार' इसीविधि भाव सुमिरिकैं |  
भुज न विलोको नाथ कदाचित् गर्भ जु धरिकैं ||२५||

Ēka mukti kā mārga dēva tumanē parakāsyā |  
Gahana caturagati mārga an'ya dēvana kūṁ bhāsyā ||  
'Hama saba dēkhanahāra' isīvidhi bhāva sumirikaim |  
Bhuja na vilōkō nātha kadācit garbha ju dharikaim ||25||

केतु विपक्षी अर्क-तनो पुनि अग्नि तनो जल |  
अंबुनिधी अरि प्रलय-काल को पवन महाबल ||  
जगत्-माँहिं जे भोग वियोग विपक्षी हैं निति |  
तेरो उदयो है विपक्ष तैं रहित जगत्-पति ||२६||

Kētu vipakṣī arka-tanō puni agni tanō jala |  
Ambunidhī ari pralaya-kāla kō pavana mahābala ||  
Jagat-māṁhiṁ jē bhōga viyōga vipakṣī haiṁ niti |  
Tērō udayō hai vipakṣa taim rahita jagat-pati ||26||



जाने बिन हूँ नमत आप को जो फल पावे ।  
नमत अन्य को देव जानि सो हाथ न आवे ॥  
हरी मणी कूँ काच काच कूँ मणी रटत हैं ।  
ताकी बुधि में भूल मूल्य मणि को न घटत है ॥२७॥  
Jānē bina hūm̐ namata āpa kō jō phala pāvē |  
Namata an'ya kō dēva jāni sō hātha na āvē ||  
Harī maṇī kūm̐ kāca kāca kūm̐ maṇī raṭata haiṁ |  
Tākī budhi mēm̐ bhūla mūlya maṇi kō na ghaṭata hai ||27||

जे विवहारी जीव वचन में कुशल सयाने ।  
ते कषाय-मधि-दग्ध नरन को देव बखानें ॥  
ज्यों दीपक बुझि जाय ताहि कह 'नंदि' गयो है ।  
भग्न घड़े को कहैं कलस ए मँगलि गयो है ॥२८॥  
Jē vivahārī jīva vacana mēm̐ kuśala sayānē |  
Tē kaṣāya-madhi-dagdha narana kōm̐ dēva bakhānair̐ ||  
Jyōm̐ dīpaka bujhi jāya tāhi kaha 'nandi' gayō hai |  
Bhagna ghaṛē kō kahair̐ kalasa ē maṅgali gayō hai ||28||

स्याद्वाद संजुक्त अर्थ को प्रगट बखानत ।  
हितकारी तुम वचन श्रवन करि को नहिं जानत ॥  
दोषरहित ए देव शिरोमणि वक्ता जग-गुरु ।  
जो ज्वर-सेती मुक्त भयो सो कहत सरल सुर ॥२९॥  
Syādvāda sañjukta artha kō pragaṭa bakhānata |  
Hitakārī tuma vacana śravana kari kō nahim̐ jānata ||  
Dōṣarahita ē dēva śirōmaṇi vaktā jaga-guru |  
Jō jvara-sētī mukta bhayō sō kahata sarala sura ||29||

बिन वाँछा ए वचन आपके खिरें कदाचित् ।  
है नियोग ए कोऽपि जगत् को करत सहज-हित ॥  
करै न वाँछा इसी चंद्रमा पूरो जलनिधि ।  
शीत रश्मि कूँ पाय उदधि जल बढै स्वयं सिधि ॥३०॥  
Bina vāñchā ē vacana āpakē khirair̐ kadācit |  
Hai niyōga ē kōapi jagat kō karata sahaja-hita ||  
Karai na vāñchā isī candramā pūrō jalanidhi |  
Śīta raśmi kūm̐ pāya udadhi jala baḍhai svayam̐ sidhi ||30||

तेरे गुण-गंभीर परम पावन जगमाँहीं ।  
बहुप्रकार प्रभु हैं अनंत कछु पार न पाहीं ॥  
तिन गुण को अंत एक याही विधि दीसै ।  
ते गुण तुझ ही माँहिनँ और में नाहिनँ जगीसै ॥३१॥

Tērē guṇa-gambhīra parama pāvana jagamāṁhīm |  
Bahuprakāra prabhu hairṁ ananta kachu pāra na pāhīm ||  
Tina guṇa kō anta ēka yāhīvidhi dīsai |  
Tē guṇa tujha hī māṁhīm aura mēm nāhīm jagīsai ||31||

केवल थुति ही नाहिनँ भक्तिपूर्वक हम ध्यावत ।  
सुमिरन प्रणमन तथा भजनकर तुम गुण गावत ॥  
चितवन पूजन ध्यान नमन करि नित आराधैं ।  
को उपाव करि देव सिद्धि-फल को हम साधैं ॥३२॥

Kēvala thuti hī nāhīm bhaktipūrvaka hama dhyāvata |  
Sumirana praṇamana tathā bhajanakara tuma guṇa gāvata||  
Citavana pūjana dhyāna namana kari nita ārādhaim |  
Kō upāva kari dēva sid'dhi-phala kō hama sādhairṁ ||32||

त्रैलोकी-नगराधिदेव नित ज्ञान-प्रकाशी ।  
परम-ज्योति परमात्म-शक्ति अनंती भासी ॥  
पुन्य पापतैं रहित पुन्य के कारण स्वामी ।  
नमौं नमौं जगवंद्य अवंद्यक नाथ अकामी ॥३३॥

Trailōkī-nagarādhidēva nita jñāna-prakāśī |  
Parama-jyōti paramātma-śakti anantī bhāsī ||  
Pun'ya pāpataim rahita pun'ya kē kāraṇa svāmī |  
Namaum namaum jagavandya avandyaka nātha akāmī ||33||

रस सुपरस अर गंध रूप नहिनँ शब्द तिहारे ।  
इनि के विषय विचित्र भेद सब जाननहारे ॥  
सब जीवन-प्रतिपाल अन्य करि हैं अगम्य जिन ।  
सुमरन-गोचर माहिनँ करौं जिन तेरो सुमिरन ॥३४॥

Rasa suparasa ara gandha rūpa nahim śabda tihārē |  
Ini kē viṣaya vicitra bhēda saba jānanahārē ||  
Saba jīvana-pratipāla an'ya kari hairṁ agamya jina |  
Sumarana-gōcara māhīm karaurṁ jina tērō sumirana ||34||

तुम अगाध जिनदेव चित्त के गोचर नहीं ।  
निःकिंचन भी प्रभू धनेश्वर जाचत सोई ॥  
भये विश्व के पार दृष्टि सों पार न पावै ।  
जिनपति एम निहारि संत-जन सरनै आवै ॥३५॥

Tuma agādha jīnadēva citta kē gōcara nāhīm |  
Ni:Kiñcana bhī prabhū dhanēśvara jācata sō'i ||  
Bhayē viśva kē pāra dṛṣṭi sōm pāra na pāvai |  
Jinapati ēma nihāri santa-jana saranai āvai ||35||

नमों नमों जिनदेव जगत्-गुरु शिक्षादायक ।  
निजगुण-सेती भई उन्नती महिमा-लायक ॥  
पाहन-खंड पहार पछें ज्यों होत और गिर ।  
त्यों कुलपर्वत नाहिं सनातन दीर्घ भूमिधर ॥३६॥

Namaum namaum jīnadēva jagat-guru śikṣādāyaka |  
Nijaguṇa-sēti bha'i unnatī mahimā-lāyaka ||  
Pāhana-khaṇḍa pahāra pachaim jyōm hōta aura gira |  
Tyōm kulaparvata nāhīm sanātana dīrgha bhūmidhara ||36||

स्वयंप्रकाशी देव रैन दिनसों नहिं बाधित ।  
दिवस रात्रि भी छतें आपकी प्रभा प्रकाशित ॥  
लाघव गौरव नाहिं एक-सो रूप तिहारो ।  
काल-कला तें रहित प्रभू सूँ नमन हमारो ॥३७॥

Svayamprakāśī dēva raina dinasōm nahīm bādhitā |  
Divasa rātri bhī chataim āpakī prabhā prakāśita ||  
Lāghava gaurava nāhīm ēka-sō rūpa tihārō |  
Kāla-kalā taim rahita prabhū sūm namana hamārō ||37||

इहविधि बहु परकार देव तव भक्ति करी हम ।  
जाचूँ कर न कदापि दीन हवै रागरहित तुम ॥  
छाया बैठत सहज वृक्षके नीचे हवै है ।  
फिर छाया कों जाचत यामें प्रापति क्वै है ॥३८॥

Ihavidhi bahu parakāra dēva tava bhakti karī hama |  
Jācūm kara na kadāpi dīna hvai rāgarahita tuma ||  
Chāyā baiṭhata sahaja vṛkṣakē nīcē hvai hai |  
Phira chāyā kōm jācata yāmēm prāpati kvai hai ||38||

जो कुछ इच्छा होय देन की तौ उपगारी ।

दुयो बुधि ऐसी करूँ प्रीतिसौं भक्ति तिहारी ॥  
करो कृपा जिनदेव हमारे परि हवै तोषित ।  
सनमुख अपनो जानि कौन पंडित नहिं पोषित ॥३९॥  
Jō kucha icchā hōya dēna kī tau upagārī |  
Dyō budhi aisī karūṁ pṛītsauṁ bhakti tihārī ||  
Karō kṛpājīnadēva hamārē pari hvai tōṣita |  
Sanamukha apanō jāni kauna paṇḍita nahim pōṣita ||39||

यथा-कथंचित् भक्ति रचै विनयी-जन केई ।  
तिनकूँ श्रीजिनदेव मनोवाँछित फल देही ॥  
पुनि विशेष जो नमत संतजन तुमको ध्यावै ।  
सो सुख जस 'धन-जय' प्रापति है शिवपद पावै ॥४०॥  
Yathā-kathāñcit bhakti racai vinayī-jana kē'i |  
Tinakūṁ śrījīnadēva manōvāñchita-phala dēhī ||  
Puni viśēṣa jō namata santajana tumakō dhyāvai |  
Sō sukha jasa 'dhana-jaya' prāpati hai śivapada pāvai ||40||

श्रावक 'माणिकचंद' सुबुद्धी अर्थ बताया ।  
सो कवि 'शांतीदास' सुगम करि छंद बनाया ॥  
फिरि-फिरिकै ऋषि-रूपचंद ने करी प्रेरणा ।  
भाषा-स्तोत्र की विषापहार पढ़ो भविजना ॥४१॥  
Śrāvaka 'māṇikacanda' subud'dhī artha batāyā |  
Sō kavi 'śāntīdāsa' sugama kari chanda banāyā ||  
Phiri-phirikai ṛṣi-rūpacanda nē karī prēraṇā |  
Bhāṣā-stōtara kī viṣāpahāra paṛhō bhavijanā ||41||

\*\*\*A\*\*\*